

### CIN - L29130HR1986PLC081555

Corporate Office: Millennium Plaza, Tower-B, Sushant Lok-1, Sector-27, Gurugram -122009, Haryana, INDIA Tel.: +91(124) 4715100

Date: September 01, 2022

The Manager,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
"Exchange Plaza", C-1, Block – G
Bandra - Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400051
Symbol – HITECHGEAR

The Manager, Listing Department, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001 Scrip code – 522073

Subject: Intimation of publication of Notice of 36<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) in newspapers

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30, 47 and other applicable regulations of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Notice of 36<sup>th</sup> AGM of the members to be held on Thursday, September 29, 2022 at the registered office of the Company at Plot No. 24, 25 & 26, Sector-7, IMT Manesar, Gurugram-122050, Haryana, along with the facility to attend the AGM through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") was duly published in the following Newspapers:

- The Business Standard (National daily newspaper in English) September 01, 2022
- The Business Standard, NCT of Delhi and Haryana September 01, 2022 (Regional daily newspaper in Hindi)

The copy of published notice is enclosed herewith for your reference.

You are requested to take the above information on records and oblige.

Thanking You

Yours faithfully, For The Hi-Tech Gears Limited

NAVEE Digitally signed by NAVEEN JAIN Date: 2022.09.01 12:59:37 +05'30'

Naveen Jain Company Secretary Membership No. A15237

# Core sector growth slows to 6-mth low

Normalisation of base effect partly behind output moderation in July, say experts; there was a contraction sequentially

SHREYA NANDI

New Delhi, 31 August

Output growth of India's eight infrastructure industries decelerated to a sixmonth low of 4.5 per cent year-on-year in July this year, according to data released by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) on Wednesday. The July number was sharply less than the double-digit core sector growth figures for the previous two months.

During July last year, core sector growth was 9.9 per cent. Slower YoY growth in July 2022 could partly be attributed to base-effect normalisation. economists said. On a sequential basis, there was a contraction of 2.3 per cent.

These eight sectors in June and May this year witnessed double-digit growth at 19.3 and 13.2 per cent, respectively.


"Normalisation of the base effect has resulted in softening of core sector growth to 4.5 per cent in July against double-digit growth recorded in the previous two months. It is important to note that the core sector output has expanded by 6.1 per cent when compared with July 2019, reflective of continued improvement over the pre-pandemic level," said Rajni Sinha, chief economist, CARE Ratings.

The eight sectors — coal, Sluggish growth steel, cement, fertilisers, electricity, natural gas, electricity can refinery products, and be attributed to crude oil — comprise twoa slowdown in fifths of India's total indusconstruction activity in the trial production. The data released by the industry monsoon season department showed that barring crude oil and natu-

ral gas, the remaining six sectors wit- rent fiscal year have been encouraging," nessed growth.

Production of coal, steel, refinery products, fertiliser, electricity, and cement witnessed YoY growth of 11.4 per cent, 5.7 per cent, 6.2 per cent, 6.2 per cent, 2.2

**DECELERATION** 



per cent, and 2.1, per cent, respectively, in July. Sluggish growth in cement and

electricity can be attributed to a slowdown in construction activity during the monsoon, economists said.

Crude oil and natural gas output contracted 3.8 per cent and 0.3 per cent, respectively "Capital expenditure by

the central government and new investment projects' announced data for the cur-

पाँच सौ रुपये

(in ₹ crore)

2,283,713

Source: CGA

1,934,771

666,212

785,914

340,831

162,280

trillion as compared to ₹1.61 trillion last

tion trend, Ind-Ra expects the Union gov-

ernment to exceed its FY23 net tax reve-

nue target (INR19.347 trillion)," said Sinha.

Non-tax revenue collections in the first

four months were 33.2 per cent of FY23

Budget target, and if envisaged disinvest-

ment does not go through, there may be

challenges for the Union government's

cent of the full year's estimate for food,

The Centre spent ₹1.1 trillion or 35 per

finances, Sinha said.

"Based on present growth and infla-

1,126,745

1,661,196

■ Actuals\* ■ Budget Estimate

Total receipts

Fiscal deficit

Revenue deficit

\*As on July 31

Sinha said, adding that the improving investment scenario in the economy bodes well for the core sector performance in the coming months

Sunil Kumar Sinha, principal econ-

omist at India Ratings, said the ongoing recovery has still a long way to go because the output of some of the core segments is still lower than the pre-pandemic level

"The coal output despite registering double-digit growth in July 2022 is still only 77.6 per cent of the pre-Covid production level (February 2020). Even the output of the cement sector is only 98 per cent of the pre-Covid level. Additionally, on a seasonally adjusted month-on-month basis, the core sector output in July 2022 shows a contraction of 1.2 per cent over June 2022. The core sector output has now declined sequentially for three consecutive months. However, Ind-Ra expects the core sector to grow around mid-single digits in August 2022," Sinha said.

### MIXED SIGNALS

# Fiscal deficit at 20.5% of full year's target; July sees a surplus

New Delhi, 31 August

India's fiscal deficit during the first four months of the ongoing financial year was at ₹3.4 trillion or 20.5 per cent of the annual target, according to government data. In April-July 2021, the Centre's fiscal deficit was ₹3.2 trillion or 21.3 per cent of last year's target.

The country's fiscal deficit is projected at 6.4 per cent of GDP for the year ending March 2023, as against 6.71 per cent for the previous year.

The Centre's total receipts stood at ₹7.86 trillion or 34.4 per cent of this year's target; during the corresponding period a year ago, the figure stood at 34.6 per cent of last year's Budget Estimate.

Total expenditure during April-July 2022 was ₹11.26 trillion or 28.6 per cent of the year's target.

The Centre spent ₹1.1 trillion, or 35 per cent, of the full year's estimate on food, fertiliser, and petroleum subsidies during the April-July period

The government STATUS REPORT was able to record a fiscal surplus in July as it cut its expenditure during the Tax revenue (net) month. The Centre's total expenditure in July was ₹1.78 trillion against ₹3.62 trillion June. Total receipts in July were Total expenditure ₹1.89 trillion.

Relatively stronger receipt growth and weak expenditure growth in July 2022 led to a fiscal surplus, which was last witnessed in March 2020, said Sunil Kumar Sinha, principal economist at India

In the April-July period, the Centre's tax revenue was ₹6.6 trillion or 34.4 per cent of the full-year target. Non-tax revenue took a hit with ₹89,583 crore mopped up in the first four months, meeting 33 per cent of the year's target; this was 36 per cent lower than last year. This was mostly because of a major decline in dividend received by the Centre; the Reserve Bank of India in May announced it would transfer ₹30.307 crore as dividend against ₹99.122 crore last year.

The Union government's gross tax revenue during April-July was 25 per cent higher than last year, and stood at ₹8.69 trillion. The corporate tax collected in the first four months was ₹1.96 trillion, against ₹1.46 trillion collected in the same period last year. Income tax collected was ₹2.42 fertiliser, and petroleum subsidies.



# **GDP** figures may weigh

Thiruvananthapuram, 31 August

duct (GDP) numbers, coupled with weak global cues, are likely to weigh on investors' sentiment during Thursday's trade.

India's GDP rose 13.5 per cent yearon-year in the April-June period. Though it is the fastest expansion in a year, it was below the predictions made by the Reserve Bank of India (RBI; 16.2 per cent) and other analysts.

India was expected to post robust economic growth on the back of a demand revival after the government eased Covidrelated restrictions. Optimism about India's growth prospects fuelled the rally

"India is largely on the growth path but it may not be as good as expected. Though the GDP numbers optically look very high, these won't fire up the markets," said U R Bhat, co-founder, Alphaniti Fintech. He noted that the equity markets had run up a lot on Tuesday and they shall correct now. Most global equity markets were trading in the red on Wednesday amid heightened volatility. The Indian markets were closed on Wednesday due to Ganesh Chaturthi

Analysts said there are signs of the slowdown, they said. Investments in the economy may also get hindered due to costlier borrowing and elevated input financial conditions eventually start to

The RBI has raised its benchmark timent in the coming days.

markets are grappling with.

# on markets

SUNDAR SETHURAMAN

in recent months in domestic equities.

celebrations.

waning of the intensity of tailwind generated by economic reopening. Instead in the coming months, India's economy shall face headwinds because of a widening trade deficit as a result of decelerating exports because of a global demand costs. "Deteriorating global growth prospects, higher inflation impacting consumption, and gradually tightening impact the pace of growth momentum as the year progresses," said Aurodeep Nandi, India economist and vice-president, Nomura, in a media statement after GDP figures were released.

rates by 140 basis points since May in a bid to bring down inflation. Concerns about rate hikes by major central banks are likely to weigh on investors' sen-

Soaring inflation in Europe and possible energy crisis in Europe and geopolitical tensions are other headwinds the

More on business-standard.com

### **ADVERTISEMENT**

are invited from Indian Citizens for appointment to 1 (one) post of member for a person from a July registered Civil Society Organisation / Non-Governmental Organisation, in the Meghalaya Gaming Commission.

Full details of the advertisement are available on website www.megast.gov.in)

Application accompanied with one self-attested passport photograph duly filled as per Bio-data cum Resume format available for download at meggst.gov.in along with testimonials may be submitted by email to comtax-meg@gov.in and the hard copy of the same should reach the office of the Commissioner of Taxes, Administrative Building, Lower Lachumiere Shillong-793001 within 30(thirty) days from the date of publication of the advertisement.

M.I.P.R. No: 857

**Commissioner of Taxes** Meghalaya, Shillong

### **INBREW BEVERAGES PRIVATE LIMITED**

Formerly known as Molson Coors India Private Limited CIN:U99999DL1972PTC318242

Registered Office: 406, KUSAL BAZAR, 32-33 NEHRU PLACE, NEW DELHI-110019 INDIA Email: intimation@inbrew.com Phone: 011-41035693

### **PUBLIC NOTICE**

Notice is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of the Members of Inbrev everages Private Limited, formerly known as Molson Coors India Private Limite Company) will be held on Friday, 30th day of September 2022 at 11.00 A.M. (IST) throug ideo conferencing mode or other audio-visual means.

For the aforesaid purpose, the Company proposes to send the notice of AGM to all it members through e-mail after the expiry of 3 days, from the date of publication of thi

Members who have not registered their email address with the Company may write to the Company at intimation@inbrew.com\_and 011-41035693\_to register their e-mail address

that the concerned members can participate in the AGM.

Inbrew Beverages Private Limite

Date: 31.08.2022 Company Secretar Place: Delhi

SRI KANNAPIRAN MILLS LIMITED
CIN: U17111TZ1946PLC000188

Registered Office: Post Bag No.1, Sowripalayam, Coimbatore 641 028 Tel: 0422- 235 1111 Fax 0422 2351110 Email : csd@kannapiran.co.in Website : www.kannapiran.co.in

### NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF 76th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 76th Annual General Meeting ("AGM") of Sri Kannapiran Mills Limited will be held on Wednesday, September 28, 2022 a 10.00 a.m. through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act 2013, read with General Circular Nos.14/2020 dated 8th April 2020, 17/202 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 5th May 2020, 02/2021 dated 13th January, 2021 and 2/2022 dated 05.05.2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs to transact the business provided in the Notice of 76th AGM of the Company (AGM Notice). Details and Instructions to attend, vote and view the proceedings of the 76th AGM is provided in the AGM Notice. The Register o Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 22nd September 2022 to 28th September 2022 (both days inclusive).

The Company will be sending the 76th AGM Notice along with Annual Report electronically to those members who have registered their email IDs with the Company / Depository Participants and or the Company's Registrar and Share Transfer Agent in compliance with MCA Circulars. Members holding equit shares in physical form who have not registered their email ID may get the same registered with Company / RTA. Members participating through the VC/OVAN facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. Notice of the 76th AGM and Annual Report wi be made available on the website of the Company i.e www.kannapiran.co.in

The Company is providing a facility of voting through electronic means i.e remote e-voting and evoting at the AGM to be held through VC/OVAM, to vote or the business set out in the AGM Notice. Detailed instructions for attending the meeting through VC/OVAM or casting vote by remote e-voting or e-voting at the AGM is provided in the AGM Notice. Members who have not registered their email ID can procure User ID and password by following the instruction provided in the AGM Notice. By order of the Board

K G Balakrishna Place : Coimbatore Date: 22.08.2022

B HB PORTFOLIO LIMITED

CIN: L67120HR1994PLC034148 Registered Office: Plot No. 31, Echelon Institutional Area,

Sector 32, Gurugram-122001, Haryana

Phone: + 91-124-4675500, Fax: + 91-124-4370985

E-mail: corporate@hbportfolio.com. Website: www.hbportfolio.com

NOTICE OF THE 27TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATE(S

The 27th Annual General Meeting ('AGM') of the members of HB Portfolio Limited

("the Company") will be held on Friday, 30th September, 2022 at 12 Noon through

Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') facility without the

physical presence of the members at a common venue to transact the businesses as set

out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies

Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulation") read with Circular No. 14/2020 dated 08th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April,

2020, Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020, Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021 and Circular No. 02/2022 dated 05th May, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated

12th May, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022

Since the meeting will be held through VC/OAVM, facility for appointment of proxy will

The Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2021-22 have been sen

electronically to all the members, whose e-mail address are registered / available with

In compliance with Section 108 of the Act, Rule 20 of the Companies (Management and

Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI Listing

Regulations and various Circular(s) issued by MCA and SEBI as mentioned above, the

Members are provided with the facility to attend AGM through Video Conferencing (VC).

Other Audio Visual Means (OAVM), to cast their vote electronically through the Remote e-voting before the AGM and through e-voting during the AGM, through the Authorised

Detailed process and manner of Remote e-voting / e-voting during the AGM and

instructions for participation at the AGM through VC/OAVM are provided in the Notice of

a) the Ordinary Business as set out in the Notice of 27th AGM will be transacted

b) the Remote e-voting shall commence on Tuesday, 27th September, 2022 at

c) the Remote e-voting shall end on Thursday, 29th September, 2022 at 05:00 P.M.

d) the e-voting rights of the Members shall be in proportion to the paid-up value of

their Shares in the Equity Share Capital of the Company. Members of the

Company holding Shares either in physical form or in dematerialized form, as on

the cut-off date i.e. Friday, 23rd September, 2022, may cast their vote by

Company after dispatch of the Notice and holding Shares as on the cut-off date

i.e. Friday, 23rd September, 2022 may follow the login process mentioned in the

i. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be

Members who have casted their vote through Remote e-voting prior to the

AGM may also attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to

v. In case of any grievance connected with the facility for voting by electronic means, Members can directly contact Ms. Soni Singh

Assistant Manager - NSDL, e-mail ID: evoting@nsdl.co.in or call on Toll

Free No.: 1800-222-990 and 1800-22-4430. Members may also write to

the Company Secretary at the e-mail ID: corporate@hbportfolio.com.

Book Closure: Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013

and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books will remain

closed from Saturday, 24th September, 2022 to Friday, 30th September, 2022 (both

e) Any person who acquires Shares of the Company and becomes member of the

hereafter, the facility of Remote e-voting shall be disabled by NSDL.

the Company / Depository Participants (DP) as on Friday, 26th August, 2022.

e Board of India (SERI) here

s and Exchar

Agency, National Securities Depository Limited (NSDL).

Remote e-voting before AGM / e-voting at AGM.

owed to change it subsequently

cast their vote again at the meeting

days inclusive) for the purpose of this AGM.

Date : 31st August, 2022

Place: Gurugram

through VC/OAVM and e-voting at the AGM

All the Members are hereby informed that:

through voting by electronic means

"the Circular(s)"

not be available for the AGM.

### PREMIER ENERGY AND INFRASTRUCTURE LIMITED CIN: L45201TN1988PLC015521

Registered Office: Tangy Apartments, "A" Block, New No.6/1, Old No. 34/1. Dr. P V Cherian Cresent Road, Egmore Chennai 600008. Email: premierinfra@gmail.com Website: www.premierenergy.in

### 30th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD OVER VIDEO CONFERENCING

10. Notice is hereby given to the members of PREMIER ENERGY AND INFRASTRUCTURE LIMITED ("the company") that the 30th Annual General Meeting ("AGM") of the company will be held on 29th September 2022, Thursday at 11.00 am I.S.T by way of Video Conferencing ("VC") or other Audio Visual Means("OAVM"), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and SEBI (Listing and Obligations and Disclosure Requirements)Regulations, 2015, read with framework issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India vide their Circulars to transact the businesses set forth in the notice of the meeting.

2. In compliance with the circulars, the Annual General Meeting of the Company will be held by way of Video Conferencing ("VC") or other Audio Visual Means ("OAVM"). Hence, the members can attend only by way of VC or OAVM facility. The detailed procedure for participating in the meeting is stated in the notice for annual general meeting.

In compliance with the circulars mentioned above, the members are hereby informed that the company will be sending electronic copies of the Notice of annual general meeting and the annual report for the financial year 2021-2022 to all the shareholders whose emails the shareholders whose emails are considered to the shareholders. addresses are registered with the company / Depository Participant(s). The notice of Annua www.premierenergy.in and on the website of the stock exchange i.e. BSE Limited a www.bseindia.com.

Members who have not registered or who wish to update their e-mail ID, postal address telephone/mobile numbers, Permanent Account Numbers, bank account details are requested to register/intimate the same with their Depository Participant, if the shares are held by them in electronic form and in case of members holding shares in physical form, al intimations are to be sent to Central Depository Services (India) limited a easiadmin@cdslindia.com, agm@cameoindia.com and premierinfra@gmail.com

The Company is providing remote e-voting facility to all its members to cast their votes on al resolutions set out in the notice of the AGM. Additionally, the company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting, e-voting at the AGM is provided in the Notice of the AGM. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email address will be provided in the notice of the AGM. The instructions for joining the AGM will be provided in the notice of the AGM.

6. The 30th AGM Notice will be sent to the shareholders in compliance with the applicable law on their registered addresses in due course

> On behalf of the Board of Director For Premier Energy and Infrastructure Limited M Narayanamurthi Managing Director

Place: Chenna Date: 31.08.2022

ousiness as set out in the Notice of the AGM

-122002, Haryana. **Tel.**: + 91(124) 4715100

### NOTICE OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING

(A) Annual General Meeting (AGM) & Book Closure: Notice is hereby given that 36th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Thursday, September 29, 2022 at 05.00 P.M. at the registerer office of the Company at - Plot No. 24,25&26, Sector-7, IMT Manesar, Gurugram-122050 Haryana along with the facility to attend the AGM through Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual means ("OAVM") in view of the continuing COVID-19 pandemic and in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013, rules framed thereunder, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the Members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change

'SEBI (LODR)'), read with circulars issued by MCA and SEBI in this regard, to transact th

Members can opt for only one mode of voting, i.e., either by Ballot Form or remote e-votin or through E-Voting (where the members attending the meeting though VC or OAVM facility). In case Members cast their votes through any of the mode, voting done by remote e-voting shall prevail and votes cast through Ballot Form or e-voting shall be treated as

The Notice of AGM and Annual Report have been sent in electronic form to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfe Agent ('RTA')/ Depository Participant. Notice is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (LODR) that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 23, 2022 to Thursday, September 29, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of Final Divided for the financial year 2021-22, if approve

### (B) Remote E-voting:

Members of the Company be and are hereby informed that pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of Companies (Management and Administration Rules), 2014 and Regulation 44 of the SEBI (LODR), the Company has offered Remote e-voting facility for its members to cast their vote electronically on all the resolutions set forth in the Notice from a place other than venue of AGM through the platform of National Securities Depository Limited (NSDL). The details pursuant to the provisions of the Act and the said

(a) Date and time of Commencement of remote e-voting: Monday, September 26, 2022 at 09 00 A M (IST)

(b) Date and time of end of remote e-voting: Wednesday, September 28, 2022 at 05.00 P.M.(IST). The e-voting module shall also be disabled for voting thereafter.

(c) Cut-off date: Thursday, September 22, 2022.

(d) Notice of AGM inter alia containing the procedures of E-voting, Proxy Form and Attendance Slips, are available on the website of the Company at www.thehitechgears.com Any person who have acquired shares after the dispatch of the Notice of AGM and

before the cut-off date may approach the RTA or Company for issuance of the User ID and Password for exercising their right to vote by electronic means. At the AGM, facility for voting through ballot paper/e-voting shall be made available

and only the members as on the "cut-off date" i.e. September 22, 2022 who have not cast their vote by remote e-voting shall be entitled to exercise their right to vote at the AGM through ballot paper/e-voting.

(g) A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.

(h) A Person whose name is recorded in the Register of Members/ Beneficial owners as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of remote e-voting or voting ir

The facility for e-voting at AGM shall also be made available on the day of AGM i.e. on September 29, 2022. Members may access the same at https://www.evoting.nsdl.com under shareholders/members login by using the remote e-voting credentials .The members who have not cast their votes through remote e-voting can cast their vote at e

The Company has appointed Mr. Nirbhay Kumar, proprietor of M/s Nirbhay Kumar & Associates, Practicing Company Secretary as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. For queries relating to e-voting, members may refer FAQs and e-voting user manual for members available in download section at www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-1020-990 or send a request a

All correspondence related to e-voting may also be written to Mr. Naveen Jain, Company Secretary, at aforesaid address or email to secretarial@thehitechgears.com.

(C) E-Voting at the AGM

If final dividend on shares is approved at the AGM, payment of such dividend will be made to those members whose names appear in the Register of Members as per book closure mentioned above in terms of Section 91 of the Act, Regulation 42 of SEBI (LODR) and other applicable provisions.

The aforesaid Notice of 36th AGM and Annual Report for the Financial Year 2021-22 are

Naveen Jain

Place: Gurugram





For HB Portfolio Limited

Aiav Kumar Mohanty

(Company Secretary)

Membership No: FCS-7133

Aperson whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of Remote e-voting, attend the AGM iv. The Notice of AGM and Annual Report are available on the website of the Company at www.hbportfolio.com, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and website of NSDL at

(D) Final Dividend:

also available on the website of the Company i.e. at www.thehitechgears.com. For The Hi-Tech Gears Limited

Company Secretary

CIN: L28122DL1983PLC017141 Regd. Office: 18, Pusa Road, First Floor, Karol Bagh, New Delhi-110005 Tel No: 011-46830202, 28750649 Fax: 011-28753591 Website: www.amdindustries.com Email id: investor@amdindustries.com

### NOTICE

In compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and rules made thereunder, Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Listing Obligations and Rules made thereunder, Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No 17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 (collectively referred as 'MCA Circulars') and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 ('SEBI Circular') (MCA Circulars and SEBI Circular collectively referred as the 'Circulars'), NOTICE is hereby given that the 39th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of AMD Industries Limited ('Company') will be held on Wednesday, September 28, 2022 at 02.30 p.m. (IST) through Video Conferencing /Other Audio Visual Means ('VC/OAVM'), without the physical presence of the Members at the AGM, to transact the business as set out in the AGM Notice. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. In compliance with the Circulars, AGM Notice along with the Annual Report for FY

2021-22 ('Annual Report') will be sent in due course only through electronic mode to those Members whose email ids are registered with the Company/ Registrar and Transfer Agent ('RTA')/Depository Participant ('DP'). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.amdindustries.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com.

Members will be provided with the facility to cast their vote electronically, through the

emote e-Voting facility (before the AGM) and e-Voting facility (at the AGM), on all the solutions set forth in the Notice. The facility of casting votes will be provided by NSDL. Facility for e-Voting at the AGM will be made available to those Members present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-Voting. The Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be eligible to vote at the AGM. Detailed process and manner of remote e-Voting, e-Voting at the AGM and instructions for attending the AGM through VC/OAVM is being provided in the AGM Notice. Members whose email ids are already registered with the Company/RTA/DP, may follow the instructions for remote e-Votin as well as e-Voting at AGM as provided in the AGM Notice.

Members who have not registered their email ids, are requested to register the same for receiving all communications including Annual Report, Notices etc. from the Company electronically as per process mentioned below. Upon successful registration of email id, the login ID and password for e-Voting shall be shared on the member's

registered email id:

(I) Members holding Equity Shares of the Company in demat form may temporarily register their email ids with Company's RTA, Bigshare Services by clicking the link www.bigshareonline.com/ForInvestor.aspx and following the registration process as guided therein. However, for permanent registration of email id members are equested to approach their respective DP and follow the process advised by DP.

Members holding Equity Shares of the Company in physical form may register their details with Big share by clicking the link: www.bigshareonline.com. For Investor.aspx and following the registration process as guided therein.

(ii) Alternatively, Members may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring user id and password for e-Voting by providing documents as mentioned in the AGM

The Board of Directors of the Company at their meeting held on 10th August, 2022 recommended payment of dividend of Re. 0.75/- per Equity Share of face value Rs. 10/each for the financial year ended March 31, 2022, subject to approval of Members at the AGM. The dividend, if approved by the Members, will be paid to Members holding Equity Shares of the Company, either in electronic or in physical form as on the record date, i.e. September, 21, 2022 for determining eligibility of Members to receive the

In terms of the provisions of the Income Tax Act, 1961, ('IT Act'), dividend income will be taxable in the hands of the Members and the Company is required to deduct tax at source at the prescribed rate from the dividend paid. The deduction of tax at source will be based on the residential status and classification of Members, documents submittee and accepted by the Company. The Members are therefore, requested to upload requisite tax related documents/declarations on the link <a href="www.bigshareonline.com/ForInvestor.aspx">www.bigshareonline.com/ForInvestor.aspx</a> on or before September 5, 2022 to enable the Company to determine

the appropriate withholding tax rate applicable.

Members holding Equity Shares of the Company in demat form and who have not registered their Bank details are requested to approach their respective DP to register their Bank account details. The Members holding Equity Shares of the Company in physical form and who have not registered their Bank details may register their Bank details with the Big share by clicking the link: <a href="www.bigshareonline.com/">www.bigshareonline.com/</a> For Investor.aspx and following the registration process as guided therei

for AMD Industries Ltd

Radha Shakti Gara

### हाई-टेक गियर्स लिमिटेड <sup>29130HR1986PLC081555</sup>

कार्पो. कार्यालय : 14 वां तल, मिलेनियम प्लाजा, टावर-बी, सुशान्त लोक-।, सेक्टर-27, -122002, हरियाणा फोन : + 91(124) 4715100 ट : www.thehitechgears.com, ई-मेल : secret

### 36वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

### (क) वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) एवं बही बंदी

नददारा सचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की 36वीं वार्षिक सा रापद्वार पूर्वणा चाजात हो प्रकार के स्वाप्त के स्वित्य के अध्याप के स्वाप्त के अपने के अपने के अपने के अपने के एजीएम की सुचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2021 के अप. 05.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर 24, 25 एवं 26, सेक्टर—7, आईएमटी मानेसर, गुरूग्राम, हरियाणा में, कोविड—19 वैश्विक महामारी को देखते हुए तथा कम्पनी धिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, तदधीन विरचित नियमों, सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 ('सेबी '(एलओडीआर)') के साथ पठित एमसीए तथा सेबी द्वारा जारी किए गए सर्कुलर्स के अनुपालन में, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने की सुविधा के साथ

जीएम में मतपत्र द्वारा वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा बैठक में भाग ले रहे ऐर सदस्य, जिन्होंने अपना वोट रिमोट ईं-वोटिंग द्वारा नहीं डाला है, बैठक में मतपत्र द्वारा अपना वोट डाल सकेंगे। किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद उसमें बाद में बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

त्तिरस्थान पाटिन के क्येतर अथवा ई-नोटिंग द्वारा वोट डाल सकते हैं (जहां सदस्य वीसी या ओएवीएम द्वारा बैठक में भाग ले रहे हैं)। यदि सदस्यों ने किसी भी विधि से वोट डाला है, तो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाला गया वोट मान्य होगा तथा मतपत्र द्वारा अथवा ई-वोटिंग द्वारा

जीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप में उन सदस्यों को भेजी जा चुकी हैं, जिनका ई—मेल पता कम्पनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेन्ट ("आरटीए") / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास दर्ज है। कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 तथा . 'सेबी एलओडीआर") के विनियम 42 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की ारा 91 के अनुसरण में, यह सूचना भी दी जाती है कि कम्पनी की सदस्य पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां शुक्रवार, सितम्बर 23, 2022 से बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 2022 तक (दोनों तिथियों सहित) एजीएम तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु अंतिम लाभांश, यदि शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया, के भुगतान के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी।

कम्पनी के सदस्य सूचित हों और एतदुद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन नेयमावली), 2014 के नियम 20 तथा सेबी (एलओडीआर) के विनियम 44 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के अनुसरण में, कम्पनी इसके सदस्यों को एजीएम की सूचना रे सूचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर अपना वोट नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड . रनएसडीएल) के प्लेटफार्म के माध्यम से, एजीएम के स्थान से इतर किसी अन्य स्थान से . लेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा डालने के लिए रिमोट ई—वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। अधिनियम १था उक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसरण में विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :

(क) रिमोट ई—वोटिंग आरंभ होने की तिथि एवं समय : सोमवार, सितम्बर 26, 2022 पूर्वा 09.00 बजे (आईएसटी)।

(ख) रिमोट ई—वोटिंग समाप्त होने की तिथि एवं समय : बुधवार, सितम्बर 28, 2022 अप 05.00 बजे (आईएसटी)। तदुपरांत ई—वोटिंग मॉड्यूल वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिय

(ग) विच्छेदन तिथि : बृहस्पतिवार, सितम्बर 22, 2022

(घ) वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना जिसमें अन्य के साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया, परोक्षी प्रपत्र तथा उपस्थिति पर्चियां समाविष्ट हैं, कम्पनी की वेबसाइट www.thehitechgears.com पर उपलब्ध हैं। (ङ) कोई व्यक्ति, जिसने एजीएम की सूचना प्रेषित किए जाने के बाद और विच्छेदन तिथि र

पहले शेयर अर्जित किए हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक साधनों से वोट डालने के अधिकार के प्रयोग हेतु यूजर आईडी तथा पासवर्ड जारी करवाने के लिए आरटीए अथवा कम्पनी से सम्पर्क करें। (च) एजीएम में मतपत्र / ई-वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा

केवल वे सदस्य एजीएम में मतपत्र /ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने के अधिकारी होंगे, जो विच्छेदन तिथि अर्थात सितम्बर 22, 2022 को कम्पनी के सदस्य है तथा जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है।

(छ) सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है परंतु उसको बैठक में दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी

(ज) कोई व्यक्ति, जिसका नाम डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लामार्थी स्वामी पंजिका / सदस्य पंजिका में विच्छेदन—तिथि को दर्ज मौजूद है, केवल वही व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम मे वोटिंग का हकदार होगा।

जीएम में ई—वोटिंग की सुविधा एजीएम के दिन अर्थात सितम्बर 29, 2022 को उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्यगण उसको रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेन्थियल्स का उपयोग करते हुए https://www.evoting.nsdl.com पर शेयरहोल्डर्स / मेम्बर्स लॉगइन के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं जिन सदस्यों ने अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग द्वारा नहीं डाला है, वे अपना वोट ई-एजीएम मे

कम्पनी ने श्री निर्भय कुमार, मैसर्स निर्भय कुमार ऐंड एसोसिएट्स के स्वामी, कार्यरत कम्प सचिव को ई–वोटिंग प्रक्रिया के निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संचालन की संवीक्षा के लिए संवीक्षक नियुक्त किया है। ई–वोटिंग के संबंध में किसी संदेह / शिकायत के लिए सदस्यगण www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड सेक्शन में सदस्यों के लिए एफएक्यू'ज तथा ई–वोटिंग यूजर मैनुअल देखें अथवा टोल फ्री नंबर : 1800–1020–990 पर कॉल करें अथवा voting.nsdl.com पर अनुरोध भेजें।

ई—वोटिंग से संबंधित समस्त पत्राचार श्री नवीन जैन, कम्पनी सचिव के साथ उपरोक्त पते पर करें अथवा <u>secretarial@hitechgears.com</u> पर ई—मेल करें।

### (घ) अंतिम लाभांश:

स्थान : गुरूग्राम

तिथि : अगस्त 31, 2022

यदि एजीएम में शेयरों पर अंतिम लाभांश अनुमोदित किया जाता है, तो उस लाभांश का भुगता उन सदस्यों को किया जाएगा जिनका नाम, अधिनियम की घारा 91 सेबी (एलओडीआर) वे विनियम 42 तथा अन्य लागू प्रावधानों के निबन्धनों में उपरिवर्णित बही बंदी के अनुसार सदस्यो

36वीं एजीएम की उपरोक्त सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की

ाबसाइट नामतः www.thehitechgears.com पर उपलब्ध हैं। वास्ते दि हाई-टेक गियर्स लिमिटेड हस्ता./

सहित, उसके अथवा उसके किसी भाग के साथ संबंधित दायाधिकारों तथा परिसरों सहित, जो नीचे दिए अनुसार परिबद्ध है उत्तर : डीडीए भूमि, दक्षिण : पेट्रोल पम्प स्टेशन, पूरब : डीडीए भूमि, पश्चिम : आईटीओ को रोड नवीन जैन

कम्पनी सचिव

**AVONMORE CAPITAL & MANAGEMENT SERVICES LIMITED** CIN: L67190DL1991PLC045857

Regd. Off.: F-33/3, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi - 110020 Tel:.: 011-43500700, Fax.: 011-43500735

Website: www.avonmorecapital.in, E-mail ID: secretarial@almondz.com INTIMATION OF ANNUAL GENERAL MEETING

The 30<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of Avonmore Capital & Management Services Limited (the Company.) will be held on Thursday, September 29, 2022 at 01.00 P.M IST through VC or OAVM in compliance with the relevant provisions of the Companies Act, 2013 (as amended) (the Act.) and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) (the Listing Regulations.) and all applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) for convening the General Meeting through VC / OAVM and Securities And Exchange Board of India (Sebi Circulars) to transact the business as set forth in the notice of AGM.

In accordance with the aforesaid Circulars, the notice of the 30<sup>th</sup> AGM and Annua Report will only be sent to the shareholders individually through e-mail if his/her named and the state of the shareholds individually almost properties of the Notice of 30th AGM is also available on the Company's website www.avonmorecapital.in, on the website of Stock Exchange www.bseindia.com and on the website of www.evotingindia.com.

Members holding shares in physical mode and who have not updated their ema addresses with the Company are requested to update their email addresses by writing to the Company at secretarial@almondz.com or company's Registrar and Share Transfer Agent, Beetal Financial & Computer Services Private Limited at beetalrta@gmail.com along with the copy of the signed request letter mentioning the name and address of the Member, self-attested copy of the PAN card, and self-attested copy of any document (eg.: Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register / update their email addresses with the relevant Depository Participants.

The manner of Remote e-voting and in the AGM for Members holding shares in physica mode or in dematerialized mode and for members who have not updated their enail addresses with the Company, forms part of the Notice of the AGM. Shareholders attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purposes of quorum under section 103 of the Company Act 2013.

In case of any gueries/grievances pertaining to e-voting, you may contact Mr. Punee Mittal General Manager, Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd. al beetalrta@gmail.com Telephone Nos. 011 29961281 or call 1800225533 or refer to frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at ww.evotingindia.com

For Avonmore Capital & Management Services Limited

Company Secretary & Compliance Officer

**ा** एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड

CIN: L67120HR1994PLC034148 **पंजीकृत. कार्यालय :** प्लॉट नं. 31, एशलॉन इंस्टिट्यूशनल एरिया सैक्टर-32, गुरूग्राम-122001, हरियाणा फोन: + 91-124-4675500, फैक्स: + 91-124-4370985

### ई-मेल : corporate@hbportfolio.com, वेबसाइट : www.hbportfolio.com 27वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना –वोटिंग जानकारी तथा बही बंदी तिथि(यां)

प्रिय सदस्यगण

एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 27वीं वार्षिक सामान्य बैठव . एजीएम"), **शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को दोपहर 12.00 बजे**, एजीएम की सचना मे सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के लागू प्रावधानो एवं तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी परिपत्र संख्या 14 / 2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17 / 2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांकित 05 मई, 2020, परिपत्र संख्या 2/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 तथा परिपन्न संख्या 02/2022 दिनांकित 05 मई, 2022 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपन्न संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी/ सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020, परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/ सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021 तथा परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांकित 13 मई, 2022 इसमें आगे "परिपत्र(परिपत्रों)" कहे गए हैं, के अनुपालन में, किसी उभय स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेन्स ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएंगी।

चूंकि बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, अतः एजीएम के लिए परोक्षी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2021—22 हेतु वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि रे उन सभी सदस्यों को भेजी जा चुकी है, जिनका ई—मेल पता **शुक्रवार, 26 अगस्त, 2022** को कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स (डीपी) के पास पंजीबद्ध / उपलब्ध है।

अधिनियम, की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित, व नियम संख्या 20 तथा सेबी सूचीयन विनियमावली और उपरोक्त परिपत्र (परिपत्रों) के अनुपालन में सदस्यों को वीर्डियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ऑएवीएम) के माध्यम से एजीएम में भाग लेने, एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने हेत् सुविधा, अधिकृत एजेन्सी, **नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)** . जिरये उपलब्ध कराई जा रही है।

रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और ढंग तथा वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतु अनुदेश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। सभी सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि

क) 27वीं एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिये मतदान द्वारा किया जाएगा

ख) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 को सुबह 09.00

बजे शुरू होगा ; ग) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2022 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगा। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा एनएसडीएल

**घ)** सदस्यों के ई—वोटिंग अधिकार कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के प्रदत्त मुल्य के अनुपात में होंगे। कंपनी के वह शेयर धारक जिनके पास **कट—ऑफ तिथि** अर्थात शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर होंगे, वह एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा / एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा मतदान

ङ) यदि कोई व्यक्ति कंपनी के शेयर का अधिग्रहण सूचना के प्रेषण के पश्चात करता है और कंपनी का सदस्य बनता है तथा **कट—आँफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 23** सितम्बर, 2022 को शेयरधारक है, वह सूचना में वर्णित लॉगइन प्रक्रिया का पालन कर सकता है।

चट्ट आगे नोट

द्वारा निषेध कर दी जाएगी ;

i. किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद सदस्य को उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

ii. जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर चुके हैं, वीसी /ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु उनको बैठक में पुनः मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

iii. वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपोजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में अभिलिखित होगा वह रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने तथा एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने हेतु योग्य

iv. एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.hbportfolio.com स्टॉक एक्सचेंज नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर

 ए. इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के संबंध में किसी भी शिकायत की स्थिति में, सदस्यगण सीधे सुश्री सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक — एनएसडीएल, ई—मेल आईडी: evoting@nsdl.co.in से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800—222—990 तथा 1800—22—4430 पर कॉल कर सकते हैं। सदस्यगण कम्पनी सचिव को भी ई-मेल आईडी corporate@hbportfolio.com पर लिख सकते हैं।

बही बंदी: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के पावधानों और सेबी (सचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली. 2015 के विनयम 42 के अनसार सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें आगामी एजीएम के उद्देश्य से शनिवार, 24 सितम्बर, 2022 से शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बन्द रहेंगी।

कृते एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड हस्ता / अजय कुमार महान्ति

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पता : एशियन बिल्डिंग, भू तल, 17 आर. कमानी

(कम्पनी सचित्र)

कब्जा सचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8-(1) (परिशिष्ट-4) के अधीन

जबिक, अधोहरताक्षरी ने मैसर्स आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का

प्रतिभूतिकरण एवं पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के

नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित

कर्जदार(रों) / सह-कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) को मांग सूचना(एं) जारी की थीं, जिसमें उनसे सूचना में वर्णित राशि का भगतान उक्त

सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार/सह—कर्जदार/गारंटर उक्त राशि चुकाने मे

. असफल रहे हैं, अतः एतदद्वारा कर्जदार(रों) / सह–कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी

ने मैसर्स आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड की ओर से उक्त नियमावली के नियम 8–(1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की

विशेष रूप से कर्जदार(रों) / सह-कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार मैसर्स आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड की

धारा 13 (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

यहां नीचे वर्णित बकाया राशि का भुगतान, उस पर आगे ब्याज सहित के प्रथम प्रभार के अधीन होगा।

तिथि : 31 अगस्त, 2022 स्थान : गुरूग्राम Membership No: FCS-7133

(T) IDBI trustee मार्ग, बैलार्ड एस्टेट - मुम्बई 400 001. ई-मेल : itsl@idbitrustee.com IDBI Trusteeship Services Ltd सीआईएन : यू65991एमएच2001जीओआई131154

कर्जदार(रों) / सह-कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) का नाम

1. जस्ट अबाउट मुवीज प्राइवेट लिमिटेड ("कर्जदार")

**3 एवं 4 का पता :** केएच-4, कवि नगर, गाजियाबाद-201002

2. शिप्रा एस्टेट लिमिटेड (कार्पोरेट गारंटर)

नारायण मंजिल, नई दिल्ली–110001

श्री मोहित सिंह (व्यक्तिगत गारंटर)

श्रीमती बिंदु सिंह (व्यक्तिगत गारंटर)

प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का वर्णन

तिथि : 01-09-2022 स्थान :- दिल्ली

### RELIANCE रिलाइंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड 11वाँ तल, नॉर्थ साइड, आर—टैक पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेर हाईवे, गोरेगाँव (ईस्ट), मुंबई—400063

कब्जा सूचना (परिशिष्ट ।∨) (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8(1)

जबिक **मेसर्स रिलाइंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आरएआरसी)**, एसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत) के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम . 2002 (2002 का 54) (यहाँ आगे **''आरएआरसी''** कहा गया है) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तिय का प्रयोग कर सूचना में उल्लिखित राशि 🕏. 1,25,7,256.64/- दिनांक 12.02.2016 रं ब्याज सहित उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए

श्री दानिश मोहम्मद (''कर्जदार'') दानिश मोहम्मद (''कर्जदार'') 2. नसीरन बेगम रईसुद्दीन और कमरुद्दीन, सभी निवासी:- मकान नं. 353/2, कैला-2 गाजियाबाद-201001 (उत्तर प्रदेश को मांग सूचना दिनांकित 13.02.2016 जारी की थी। कर्जदार द्वारा राशि अदा न कर पाने पर कर्जदार और जन सामान्य को एतददारा सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 वं ाथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

कर नीचे वर्णित संपत्ति का **30 अगस्त, 2022** को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार और सर्व जन को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेन-देन करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन राष्टि **ए. 1,25,7,256.64∕−** और **12.02.2016** से इस पर ब्याज व अन्य प्रभारों के लि **'आरएआरसी''** के प्रभार के अधीन होगा।

प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को उपलब्ध समय में मुक्त कराने के लिए अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा(8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

संपत्ति की अनुसूची:-

आवासीय संपत्ति मकान नं. 266, जगराता विहार, संजय नगर, सेक्टर 23 गाजियाबाद-201001 (उत्तर प्रदेश) के सभी भाग व खंड।

थानः गाजियाबाद हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी मेसर्स रिलाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड दिनांक: 30.08.2022

> ਧਧਕ ਕੀ सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 12 के अधीन]

विभिन्न विभावता, २०१७ वर्ग विभिन्न १२ वर्ग अवस्थि					
मैसर्स पैलेट एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड हितधारकों के ध्यानार्थ					
	विवरण	ब्यौरा			
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	मैसर्स पैलेट एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड			
2.	कार्पीरेट देनदार के निगमन की तिथि	04 अगस्त 2010			
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रारऑफ कम्पनीज–दिल्ली			
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U20296DL2010PTC206628			
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो तो) का पता	205ए, ग्राउंड फ्लोर, एलएससी, वर्धमान प्रीमियम मॉल, आउटर रिंग रोड, दीपाली, पीतमपुरा नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली—110034			
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता समापन तिथि	27 अगस्त 2020			
7.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में परिसमापन आरंभन तिथि	<b>26 अगस्त 2022</b> (आदेश दिनांक 30.08.2022 को वेबसाइट पर अपलोड किया गया)			
8.	परिसमापक के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	रेशमा मित्तल पंजी.संख्याः BB /IPA-001/IPP00297/2017-18/10541			
9.	परिसमापक का पता और ई—मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	<b>पताः</b> आर−4 ∕ 39, राज नगर, गाजियाबाद−201002 <b>ईमेल</b> ः careshmamittal@gmail.com			
10.	परिसमापक के लिए पत्राचार के लिए उपयोग किए जाने वाले पते और ईमेल	<b>पता</b> ः आरआर इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एलएलपी आर—4 / 39, राज नगर, गाजियाबाद—201002 <b>ईमेल</b> ः irp.pellet@rrinsolvency.com			
11.	दावे प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	25 सितंबर 2022			
mann non the state of the section of					

एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है। (आदेश दिनांक 30.08.2022 मैसर्स पैलेट एनर्जी सिस्टम्स पाइवेट लिमिटेड के हितधारकों को इसके दारा 25 सितंबर 2022 को या उससे

ाहले प्रमाण के साथ अपने दावे परिसमापक को क्रम संख्या 10 में उल्लेखित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता हैं। वित्तीय लेनदार अपने दावों के प्रमाण केवल इलेक्टॉनिक माध्यम से जमा करेंगे । अन्य सभी हितधारक अपने दावों के माण व्यक्तिगत, डाक द्धारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्धारा जमा कर सकते हैं । असत्य या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना किया जा सकता हैं । रेशमा मित्तल

परिसमापक, पैलेट एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड **दिनांक**: 31.08.2022 पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IPP00297/2017-18/10541

कार्यालय वसूली अधिकारी-।/॥

ऋण वसुली द्रिब्युनल, देहरादुन

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा निरंजनपुर, सहारनपुर रोड, देहरादून

<u>मांग सुचना</u>

बैंक एवं वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 के अधीन ऋण की वसूली की धारा 25 से 28 एवं आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस। आर.सी.संख्या ४३६/२०१९ डी.वाई संख्या 774 दिनांक : 16/08/2022

पंजाब नैशनल बैंक श्री संदीप मित्तल सेवा में, सीडी–1. श्री संदीप मित्तल पुत्र श्री विनोद कुमार मित्तल, निवासी 15, पश्चिम राजपुताना, परगना तहसील–रुड़की, जिला–हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सीडी–2. श्री सौरम् मित्तल पुत्र श्री विनोद कुमार मित्तल, निवासी 15, पश्चिम राजपुताना, परगन

तहसील–रुडकी, जिला–हरिद्वार, उत्तराखण्ड। यह सूचित किया जाता है कि ओए/198/2019 में पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरणे देहरादून द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार 2,04,91,382.59/- की राशि (दो करोड़ चार लॉख इक्यानवे हजार तीन सौ बयासी रुपये एवं

उन्सठ पैसे मात्र) को लंबित राशि और भविष्य के ब्याज को 10.25% प्रति वर्ष की दर से लागत रु 1,89,090/- (एक लाख नवासी हजार एवं नब्बे रुपये मात्र) दिनांक 10.04.2019 से वसूली `संयक्त रूप से और अलग–अलग ) देय है। (2) इस प्रकाशन के माध्यम से आपको सचित किया जाता है कि आप इसके प्रकाशन की तिथि से 15

दिनों के भीतर उक्त धनराशि जमा करा दें अन्यथा आपसे ऋण वसूली अधिनियम एवं बैंकरप्सी एक्ट 1993 के तहत ऋण वसली की जाएगी। (3) सूचित किया जाता है कि आप शपथ पत्र पर अपनी संपत्ति का विवरण अगली सुनवाई की तारीख

को या उससे पहले घोषित करें। (4) आपको आदेश दिया जाता है कि आप अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 04/10/2022 को पूर्वाह्व 10:30

बजे आगे की कार्यवाही के लिए उपस्थित हों। इस प्रकार आप उपरोक्त धनराशि के अतिरिक्त निम्न धनराशि के भुगतान हेतु भी जिम्मेदार होगें।

(अ) इस नोटिस के सम्बन्ध में किये गये सभी व्यय एवं शुल्क तथा बकाया वसूली की प्रकिया में आने वाले समस्त व्यय । (ब) इस नोटिस के सम्बन्ध में किये गये सभी व्यय एवं शुल्क तथा बकाया वसूली की प्रकिया में आ

वाले समस्त व्यय । यह नोटिस 16/08/2022 के दिन मेरे हस्ताक्षर एवं इस ट्रिब्युनल की मोहर के अंतर्गत जारी कि वसली अधिकारी

डी.आर.टी., देहरादून

### इनब्रू बीवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड

पूर्व में मोलसन कूर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जात CIN: U99999DL1972PTC318242 पंजीकृत कार्यालयः 406, कुशल बाजार, 32-33 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019 भारत

र्डमेलः intimation@inbrew.com दूरभाषः 011-41035693

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इनब्रू बीवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी), पूर्व में मोलसन कूर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से झात, की वार्षिक साधारण बैटक (एजीएम) वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रारूप में अथवा अन्य ऑडियो विजूअल साधनों के जरिए शुक्रवार, 30 सितम्बर 2022 को पूर्वाहन 11.00 बजे (भामास) आयोजित की जाएगी।

ऊपर उल्लेखित उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तारीख से 3 दिन के समापन के उपरांत अपने सभी सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से एजीएम की सूचना भेजी जाएगी।

जिन सदस्यों ने अपने ईमेल का पता कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं कराया है वे अपने ई-मेल का

पता पंजीकृत कराने के लिए intimation@inbrew.com पर लिख सकते हैं तथा 011-41035693 पर कॉल कर सकते हैं, जिससे कि संबंधित सदस्य एजीएम में भाग ले सके कृते इनब्रू बीवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए तथा उनकी ओर से

दिनांकः 31.08.2022 स्थानः दिल्ली

रुचि नेगी कंपनी सचिव

कानूनी प्रकोष्ठ प्लॉट # 31, नजफगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया, टॉवर—ए, पहली मंजिल, शिवाजी मार्ग, HDFC BANK गेती नगर, नई दिल्ली—110015

कब्जा सूचना परिशिष्ट IV (नियम 8(1)

चूंकि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं विनिर्माण व प्रतिभूति हित प्रवर्तन, 2002 औ प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (2002 का 54) के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में एचडीएफसी बैक लि. के आधानधन को स्वोत 13(2) के राहरा प्रवर्धन रामराधा के अपुनारान ने एवडाएकरा बके लि. के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहरताक्षरी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के मेर सूचना में वर्णित रू. 77,81,472 + रू. 12,25,494 / —=कुल रुपए 90,06,966 / —(रुपए नब्बे लाख छह डजार नौ सौ छियासठ केवल) की राशि का भुगतान करने के लिए ऋणी(यों) 1. मैसर्स टैम्पो हुँडिया स्पेयर्स इसके मालिक श्री संजीव शर्मा 2. श्री संजीव शर्मा पुत्र श्री हरि देव तोला 3. श्रीमती

रितु शर्मा पत्नी श्री संजीव शर्मा को बुलाने के लिए मांग सूचना दिनांक 07.06.2022 जारी की थी। राषु समारिता अति स्वाप्त का पुराना प्रकार में असफल रहे, एतद्वारा ऋणी(यों) को और सर्वसाधारण कों सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने 30 अगस्त, 2022 को प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रवर्त्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित गिरवी संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उक्त ऋणी व एतदद्वारा सर्वसाधारण को संपत्ति के साथ व्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति

एतद्वारा सवसावारण को संपादत के साथ व्यवहार ने करने की चतावना दो जाता है और संपादत के साथ किया गया व्यवहार **रु. 77,81,472 + रु. 12,25,494 /— = कुल रुपए 90,06,986 /—** (**रुपए नब्बे लाख छह हजार नौ सौ छियासट केवल**) की राशि और चुकता राशि यदि कोई है छोड़कर, व्यय व शुल्क आदि सहित उसपर ब्याज के लिए **एवडीएफसी बँक लि.** के प्रभार का विषय होगा। ऋणियों का ध्यान प्रतिमृतित् प्रिसंपत्तियों के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा 8 के प्रावधानों के लिए आमुंत्रित है ।

अचल संपत्ति का विवरण प्लॉट नं. 256(एसएफ) क्षेत्र माप 153.24 वर्ग यार्ड सेवा हितकारी सीजीएचएस लि. की लेआउट योजना में स्थित, कैलाश हिल्स, दिल्ली में स्थित, (श्री संजीव शर्मा के स्वामित्व में संपत्ति)

दिनांक : 30. अगस्त, 2022 स्थान : दिल्ली

BEAWAR

प्राधिकृत अधिकारी एचडीएँफसी बैंक लि.

## SI Shree Cement

### SHREE CEMENT LIMITED REGD. OFFICE: BANGUR NAGAR, BEAWAR - 305 901, DISTT. AJMER (RAJ.)

Website: www.shreecement.com E-Mail: shreebwr@shreecement.com Phone: 01462-228101-06 FAX: 01462-228117-19 CIN: L26943RJ1979PLC001935 **PUBLIC NOTICE** 

NOTICE is hereby given that following Share Certificate(s) having following Distinct

Nos. held by under- named Member(s) has/have been reported misplaced/lost

SR. No.	Name of Holder(s)	Certificate Nos.	Distt. Nos.	No. of Shares
1.	JAYESH N BAROT	83687	240371-240420	50
2.	NARAYAN SHRIRAM WALKADE	1007	889921-890920	1000

Application(s) has/have been made to the Company by the registered holder(s) of these shares for issue of Duplicate Share Certificate(s) in his/their favor. If no objection is received within a period of 15 days from the date of publication of this Notice, the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificate(s).

> For SHREE CEMENT LIMITED S. S. Khandelwal

ख़बरें जो बढ़ाए आपकी तरक्की

की रफ़्तार

SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in

**Business Standard** 

Insight Out

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra एक परि<u>वार एक</u> बैंक

बजे अप. के बीच पूर्व अनुमति लेकर

अंचल कार्यालयः - एससीओ 120-122, पहली मंजिल, सेक्टर 17-सी, चंडीगढ़ -160 017, फोन: 0172-2713010, ई-मेलः cmmarc\_chd@mahabank.co.in

धान कार्यालय: 'लोकमंगल', 1501 शिवाजी नगर , पुणे 411 oos

ई-नीलामी बिक्री सूचना

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना क्र.सं. 1 हेतु : सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय : 12.09.2022 तथा 13.09.2022 को 11:00 बजे पूर्वा. से 5.00

स्थान : चण्डीगढ़

क्र.सं. 1 हेतु : नीलामी की तिथि एवं समय : 16.09.2022, शुक्रवार, 11.00 बजे पूर्वा. सं 2.00 बजे अप. ( यदि संविदा अन्तिम 5 मिनटों में रखी जाती है तो 10 मिनट के स्वतः विस्तार सहित)

क्र.सं. 2 हेतु : नीलामी की तिथि एवं समय : 07.10.2022, शुक्रवार, 11.00 बजे पूर्वा. सं 2.00 बजे अप. (यदि संविदा अन्तिम 5 मिनटों में रखी जाती है तो 10 मिनट के स्वतः विस्तार सहित)

प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। एतदुवारा आम जनता और विशेष रूप से कर्जदार/गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जिनका कब्जा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, ''जैसा है जहां है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी वहीं है'' आधार पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नीचे तालिका में उल्लिखित कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) से बकायों की वसूली के लिए क्रमांक 1 पर संपत्तियों के लिए 16.09.2022 को और कमांक 2 पर सम्पत्तियों के लिए 07.10.2022 को बिकी की जायेगी। कर्जदार और गारंटर का विवरण, देय राशि, अचल

1.	शाखा एआरबी, चण्डीगढ़, एससीओ 120-122, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रथम		रु. 1,57,48,233/- + भावी ब्याज, व्यय एवं	₹. 67,50,000/-	रु. 6,75,000/− रु. 25,000/−	
		फरीदाबाद-121001 का इक्विटेबल बंधक	29.04.2016 से प्रयोज्य अन्य प्रभार (29.04.2016 के बाद वसूली, यदि कोई हो, घटाकर)			
	यांगचन डोलमा, मोबाइल :		0172-2662122,	भौतिक क	ब्ब्जे की तिथि	
	ई-मेल : bom1949@mahabank.co.in, brmgr1949@mahabank.co.in			25.06.2018		
कर्जदारः - मैसर्स शनि इंटरनेशनल, प्रोपराइटर - श्री नीरज वाजपेयी पुत्र श्री श्रीकांत वाज फरीदाबाद -121001, गारंटरः - श्री नीरज वाजपेयी पुत्र श्री श्रीकांत वाजपेयी, प्लॉट नंबर फरीदाबाद।						
2.	शाखा : सोनीपत शाखा, बैंक ऑफ	सम्पत्ति 1750, एचबीसी, सेक्टर-	₹. 16,43,480/- +	1	₹. 2,48,300/-	
	महाराष्ट्र, गाता भवन चौक, गुरुद्वारा	15, सोनीपत, 131001 पर स्थित है	भावी ब्याज, व्यय एवं		रु. 10,000/−	
	महाराष्ट्र, गांता भवन चांक, गुरुद्वारा बिल्डिंग, सोनीपत-131001, शाखा प्रबंधक उमाकान्त पाण्डे,		भावी ब्याज, व्यय एव 27.01.2022 से प्रयोज्य यदि कोई हो, घटाकर)		रु. 10,000/−	
	बिल्डिंग, सोनीपत-131001, शाखा		27.01.2022 से प्रयोज्य यदि कोई हो, घटाकर)	अन्य प्रभार (27.0	रु. 10,000/−	

तिथि : 31.08.2022

25-05-2022 :-आईएनआर 322,61,41,536/— (रूपए तीन सौ बाईस करोड़ एवं २ का पता : फ्लैट नंबर 502, 502–ए, 5वां तल, 23 बाराखम्बा रोड, इकसठ लाख इकतालीस हजार पांच सौ छत्तीस मात्र) कब्जा की तिथि : 30-08-2022

मांग सूचना तिथि और राशि

सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : कॉमर्शियल फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी प्लॉट नंबर सी, स्थित कम्युनिटी सेंटर, आनंद विहार, दिल्ली—110092. परिमाप 2674 वर्ग मीटर, सभी प्रकार के सभी भवनों, उत्थापनों, गोदामों और निर्माणों सहित, जो वहां मौजद हैं, उत्थापित किए गए है अथवा उनके साथ जुड़े हुए हैं, उक्त भूमि पर पथों, पगडंडियों, लाइट्स, लिबर्टीज, विशेषाधिकारों, उपभोगाधिकारों, लाभों और अनुषंगियों

प्राधिकृत अधिकारी मैसर्स आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड

बजे अप. के बीच पूर्व अनुमति लेकर

क्र.सं. 2 हेतु : सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं <u>समय</u> 03.10.2022 तथा 04.10.2022 को 11:00 बजे पूर्वा. से 5.00

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा

अधिकृत प्राधिकारी एवं मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र

संपत्ति का संक्षिप्त विवरण और उस पर ज्ञात ऋणभार, कब्जे का प्रकार, आरक्षित मूल्य और जमा धरोहर राशि भी नीचे दी गई है:-शाखा नाम/कर्जदार( रों )/ निर्दिष्ट तिथि तक आरक्षित मूल्य जमानती( यों )⁄बंधककर्ता( ओं )

		तल, संक्टर 17-सां, चण्डागढ़- 160017, शाखा प्रबंधक : श्रीमती		29.04.2016 से प्रयोज्य कोई हो, घटाकर)	अन्य प्रभार (29.04.20	016 के बाद वसूली, य
١			8968022441, दूरभाष :	0172-2662122,	भौतिक क	ञ्बजे की तिथि
١		ई-मेल : bom1949@mahabank.co.i	n, brmgr1949@mahabank.co.in	25.06.2018		
	कर्जदारः - मैसर्स शनि इंटरनेशनल, प्रोपराइटर - श्री नीरज वाजपेयी पुत्र श्री श्रीकांत वाजपेयी, मकान नंबर 889, डबुआ फरीदाबाद -121001, गारंटरः - श्री नीरज वाजपेयी पुत्र श्री श्रीकांत वाजपेयी, प्लॉट नंबर 122-123, खसरा नंबर 44/3/2, फरीदाबाद।					
	2.	शाखा : सोनीपत शाखा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, गीता भवन चौक, गुरुद्वारा बिल्डिंग, सोनीपत-131001, शाखा प्रबंधक उमाकान्त पाण्डे, मो. : 7009495001,	15, सोनीपत, 131001 पर स्थित है	27.01.2022 से प्रयोज यदि कोई हो, घटाकर)	च्ये अन्य प्रभार (27.0 )	रु. 2,48,300/- रु. 10,000/- 01.2022 के बाद वस्
		₹-मेल : bom467@mahabank.co.in, brmgr467@mahabank.co.in	कुमार, गुरुद्वारा रोड, सोनीपत, हरिया			07.2022
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्ती के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट में प्रावधानित लिंक "https://www.bankofmaharashtra.in/properties_for_sale ई-बिक्रे पोर्टल (www.ibapi.in) देखें।						